



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2007/अग्रहायण 23, 1929

No. 549]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2007/AGRAHAYANA 23, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

(Department of Health and Family Welfare)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2007

New Delhi, the 14th December, 2007

सा.का.नि. 771(अ).—हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 2007 की 968 में दिये गए आदेश के अनुसरण में, सं. सा.का.नि. 641(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 के तहत अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2006 को 17-12-2007 तक लागू नहीं किया जायेगा।

G.S.R. 771(E).— In pursuance of Himachal High Court order in CWP No. 968 of 2007 dated 28-11-2007, the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006 notified *vide* No. G.S.R. 641(E) dated 1st October, 2007 will not be given effect till 17-12-2007.

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पी.एच.]

[F. No. P-16011/7/2005-PH]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.